

प्रेस नोट

दीव प्रशासन में हिन्दी पखवाड़ा की हुई शुरुआत

दीव (31/08/2018) -: दीव जिला समाहर्ता, हेमंत कुमार के मार्गदर्शन में हिन्दी पखवाड़े का आज शुभारंभ हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीव प्रशासन के राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 31/08/2018 से 14/09/2018 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है ।

इस पखवाड़े का आज शुभारंभ हुआ । इसी कड़ी में सुबह माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें दीव जिला के विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बढ-चढकर भाग लिया और निबंध लेखन में अपने-अपने कौशल दिखलाये। माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थियों ने “राष्ट्रपिता गाँधीजी के सपनों का भारत” विषय पर तथा उच्चतर माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थियों ने “सामाजिक सुधार में गाँधीजी की भूमिका” विषय पर निबंध लिखे ।

पुनः अपराह्न 4 बजे से 5 बजे तक कॉलेज के विद्यार्थियों, विद्यालयों के शिक्षकों तथा विभागों के कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी । कॉलेज के विद्यार्थियों का विषय “महात्मा गाँधी जी सामाजिक सुधारक विचार”, कर्मचारियों के लिए “डिजिटल इंडिया और हिन्दी” था तो वहीं शिक्षकों का विषय था “आज के युग में गाँधीजी के विचारों की उपयोगिता” । उक्त निबंध प्रतियोगिताओं में सभी ने बढ-चढकर भाग लिया।

ज्ञातव्य हो कि राजभाषा विभाग द्वारा पखवाड़े के दौरान प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, बैंक कर्मियों तथा सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रतियोगितायें जैसे कि निबंध, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, शब्दावली ज्ञान, वर्तनी संशोधन एवं श्रुतलेखन, सामान्य ज्ञान, टंकण और देशभक्ति गीत तथा वाक् प्रतियोगितायें रखी गई है।

इस पखवाड़े का समापन 14/09/2018 को होगा । माननीय समाहर्ता श्री हेमंत कुमार की अध्यक्षता में 14/09/2018 को ही “हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह” आयोजित होगा। इस अवसर पर पखवाड़े के दौरान विजता प्रतियोगियों को पुरस्कार के रूप में ट्राफी एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।

इस निबंध प्रतियोगिता को आयोजित करने में राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक अंतर्रामी परिडा एवं वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक सुनील कुमार तिवारी की विशेष भूमिका रही।

